



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 22 मार्च 2023

थाना खुर्जा नगर

विद्युत केबल चोरी करने वाले गिरोह के 05 शातिर सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया केबल, चोरी करने के उपकरण, 01 गाड़ी छोटा हाथी, अवैध असलहा आदि बरामद

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 22.03.2023 को थाना खुर्जा नगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर रेलवे ओवर ब्रिज के पास से विद्युत केबल चोरी करने वाले गिरोह के 05 शातिर सदस्यों को चोरी किया गया केबल, चोरी करने के उपकरण, 01 गाड़ी छोटा हाथी, अवैध असलहा आदि सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना खुर्जा नगर पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. सन्नी पुत्र उमेश निवासी गांव गेजा थाना फेस 2 जनपद गौतमबुद्धनगर।
2. बिल्लू उर्फ हसीन पुत्र काले निवासी कस्बा जहांगीरपुर मौहल्ला पाठक मेवाती मस्जिद के पास थाना जहांगीरपुर जनपद बुलन्दशहर।
3. सोनू पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी गांव गेजा थाना फेस 2 जनपद गौतमबुद्धनगर (स्थायी पता- छपरा थाना किसनी जनपद मैनुपुरी)।
4. मनुअली पुत्र सौर अली निवासी गांव भदेगुई थाना पुसेगांव जनपद कोकराझार राज्य असम
5. भूरा पुत्र सलीम निवासी गांव सनौता थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1. 01 गाड़ी छोटा हाथी नं0- DL-1UX-7582 (घटना में प्रयुक्त)
 2. लगभग 900 मीटर केबल
 3. तार काटने का कटर
 4. 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस व 04 चाकू नाजायज
- अभियुक्तों द्वारा बरामद तार को दिनांक 20/03/2023 की रात्रि में गांव समसपुर के पास सिकन्दरपुर रेलवे स्टेशन फ्लाई ओवर के नीचे बने स्टोर से चोरी किया गया था जिसके संबंध में थाना खुर्जा नगर पर मुअसं- 212/23 धारा 379 पंजीकृत है।

अभियुक्तों द्वारा दिनांक 18.01.2023 को थाना खुर्जा क्षेत्रान्तर्गत गांव मीरपुर से एक ट्रान्सफार्मर से तेल चोरी किया था जिसके संबंध में थाना खुर्जा नगर पर मुअसं- 38/23 धारा 379/427 भादवि पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. श्री धर्मेन्द्र सिंह राठौर प्रभारी निरीक्षक थाना खुर्जा नगर
2. उ0नि0 नरपाल सिंह, उ0नि0 नरेश कुमार
3. का0 जमुना प्रसाद, का0 पुष्पेन्द्र सिंह, का0 सुनित कुमार, का0 चालक राहुल कुमार



मीडिया सैल बुलन्दशहर